



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22062023-246755
CG-DL-E-22062023-246755

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2626]
No. 2626]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 22, 2023/आषाढ़ 1, 1945
NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 22, 2023/ASHADHA 1, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2023

का.आ. 2741(अ).—यतः, मै. हाईलैंड वैली कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, ने तमिल नाडु राज्य में 371/2, कदियाम पेरुमपाथू गाँव में पेट्रोल बंक के पास, मथापुरम, अम्बासमुद्रम तालुक के तिरुनेलवेली जिले में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्न तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में अधिसूचित किया था: -

क्रम संख्या	अधिसूचना संख्या	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्र (हेक्टेयर में)	कुल परिणामी क्षेत्र (हेक्टेयर में)
1.	का.आ. 1123(अ)	27.02.2019	27.425	27.425
2.	का.आ. 3720(अ)	11.10.2019	1.965	29.39
3.	का.आ. 156(अ)	08.01.2020	2.60	31.99

और यतः, मै. हाइलैंड वैली कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड ने अब उक्त विशेष आर्थिक जोन के 31.99 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और यतः, तमिल नाडु सरकार ने उनके पत्र संख्या 6132/एमआई.2/2022-1 दिनांक 7 जुलाई, 2022 के तहत प्रस्ताव को अनापत्ति प्रमाण पत्र दे दिया है;

और यतः, विकास आयुक्त, मद्रास विशेष आर्थिक जोन ने उक्त विशेष आर्थिक जोन के 31.99 हेक्टेयर के सम्पूर्ण क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की संस्तुति की है;

अतः अब केन्द्र सरकार, विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के नियम 8 के प्रथम परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्वारा उक्त अधिसूचना को इस उत्सादन से पूर्व किए गए कार्यों या किए जाने के लिए लोपित को छोड़कर, रद्द करती है।

[फा. सं. एफ.1/5/2018-एसईजेड]

विपुल बंसल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ DIVISION)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd June, 2023

S.O. 2741(E).—WHEREAS, M/s. Highland Valley Corporation Private Limited, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a sector specific Special Economic Zone for IT/ITES at 371/2, Kadayam Perumpathu village, Near Petrol Bunk, Mathapuram, Ambasamudram Taluk, Triunelveli District in the State of Tamil Nadu;

AND, WHEREAS, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified the following areas at above Special Economic Zone as details given below in the table: -

Sl. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in Hectares)	Total resultant area (in Hectares)
1.	S.O. 1123(E)	27.02.2019	27.425	27.425
2.	S.O. 3720(E)	11.10.2019	1.965	29.39
3.	S.O. 156 (E)	08.01.2020	2.60	31.99

AND, WHEREAS, M/s. Highland Valley Corporation Private Limited now proposed to de-notify the entire area of 31.99 hectares of the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Tamil Nadu has given No Objection Certificate to the proposal vide letter No. 6132/MIE.2/2022-1 dated 7th July, 2022;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Madras Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of entire area of 31.99 hectares of the Special Economic Zone;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by first proviso to rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, the Central Government hereby rescinds the above notification except as respects things done or omitted to be done before such rescission.

[F. No. F.1/5/2018-SEZ]

VIPUL BANSAL, Jt. Secy.